



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 05-11-2021

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-11-05 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-11-06	2021-11-07	2021-11-08	2021-11-09	2021-11-10
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	29.0	28.0	28.0	29.0	28.0
न्यूनतम तापमान(से.)	12.0	12.0	11.0	11.0	11.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	80	85	85	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	55	50	50	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	310	320	320	320	320
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	5	4	1	2

मौसम सारांश / चेतावनी:

विगत सात दिनों (29 अक्टूबर – 4 नवम्बर, 2021) में 0.0 मिमी वर्षा होने व आसमान साफ रहने के साथ आंशिक बादल छाये रहे। अधिकतम तापमान 28.0 से 33.0 डि०से० एवं न्यूनतम तापमान 12.5 से 15.4 डि०से० के बीच रहा तथा वायु में सुबह 0712 बजे सापेक्षित आर्द्रता 74 से 94 प्रतिशत व दोपहर 1412 बजे सापेक्षित आर्द्रता 22 से 44 प्रतिशत एवं हवा 0.5 से 2.7 कि०मी० प्रति घंटा की गति से मुख्यतः पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से चली। आगामी पांच दिनों में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 28.0 से 29.0 व 11.0 से 12.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 6.0-8.0 किमी/घंटे की गति से उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है।

सामान्य सलाहकार:

किसान भाई पिछले सप्ताह के मौसम, मौसम पूर्वानुमान और मौसम आधारित कृषि सलाह प्राप्त करने के लिए "मेघदूत ऐप" तथा आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान हेतु "दामिनी ऐप" डाउनलोड करें। मेघदूत व दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं) और ऐप स्टोर (आईओएस उपयोगकर्ताओं) से डाउनलोड किया जा सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त एनडीवीआई व एसपीआई मानचित्रों ने संकेत दिया कि उधम सिंह नगर के लिए एनडीवीआई 0.2-0.45 के बीच है, यानी जिले में कृषि स्थिति मध्यम से अच्छी है तथा एसपीआई मैप 7 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक अत्यधिक नमी की स्थिति को दर्शाता है। रबी फसलों की बुवाई हेतु खेत जुताई एवम् बीज बुवाई कार्य जारी रखें। बुवाई पूर्व बीज शोधन अवश्य करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। अतः किसान भाई सब्जी वर्गीय फसलों में आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
------	-------------------

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	असिंचित दशा में गेहूँ की फसल की बुवाई पूर्ण करें तथा सिंचित दशा में बुवाई माह के इस प्रथम पखवाड़े में करें।
जौ	असिंचित दशा में फसल की बुवाई पूर्ण करें।
सरसों	देर से बोई गई तोरिया व पीली सरसों की फसल में फूल आने से पूर्व हल्की सिंचाई करें तथा सिंचाई के पश्चात् संस्तुत मात्रा में नत्रजन की टॉप ड्रेसिंग करें।
मसूर की दाल	सिंचित दशा में मसूर की बुवाई माह के प्रथम पखवाड़े में करें। बुवाई से पहले बीज को बावस्टिन के 2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें।
चना	सिंचित दशा में, चने की पंत काबुली चना 1, 2 आदि प्रजातियों की बुवाई करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	किसान भाई मैदानी व तराई क्षेत्रों में प्याज की बुवाई करें।
सब्जी पीईए	अगेती मटर की देखभाल करें। जिन क्षेत्रों में बुवाई नहीं हुई है वहां बीज की बुवाई करें। तराई क्षेत्र में बुवाई द्वितीय सप्ताह तक अवश्य कर लें जिसके लिए 80-90 किग्रा बीज/हेक्टर की आवश्यकता होती है।
गोभी	फूलगोभी की अगेती एवं मध्यम अगेती फसल की सिंचाई करें, खरपतवार निकालें एवं तैयार फूलों को तोड़कर बाजार भेजें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	जुलाई माह में पैदा हुए 4-6 माह के बछियों को संक्रामक गर्भपात का टीकाकरण नवम्बर माह तक अवश्य करा दें। किसी भी टीकाकरण के दो हफ्ते पहले पशुवत्सो को पिपराजीन नामक कृमिनाशक दवा प्राथमिकता के आधार पर दें क्योंकि ये दवाई गोल कृमिनाशक के रूप में काफी प्रभावी पायी गयी है।